

प्रेस विज्ञप्ति थाना गोला गोरखपुर दिनांक 05.06.2022

जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में वांछित अभियुक्त विजय उर्फ पकई गिरफ्तार, साथी अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ सतीराम के कब्जे से अवैध शस्त्र व कारतूस बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के उत्कृष्ट मार्गदर्शन एवं पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी गोला के निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक गोला के नेतृत्व में उ०नि० जयराम यादव मय हमराह का० दिनेश कुमार यादव के देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारणटी के क्षेत्र में मामूर था कि जरिये मुखबीर सूचना पर डड़वापार मोड़ पहुँचा जहाँ दो संदिग्ध व्यक्ति मिले जिनसे पूछताछ किया गया तो पहले ने अपना नाम 1.विजय उर्फ पकई यादव पुत्र स्व० महेन्द्र यादव निवासी डड़वापार थाना गोला जनपद गोरखपुर बताया जो मु०अ०सं० 58/2022 धारा 147/505(2)/504/506 भादवि व 66 आईटी एक्ट व 3(1) दध एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त है तथा दूसरे अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ सतीराम यादव पुत्र रामनिवास यादव निवासी पाण्डेयपार उर्फ डड़वा थाना गोला जनपद गोरखपुर की जामा तलाशी से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ जिस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 157/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर दोनों अभियुक्तों को कारण गिरफ्तारी बताते हुए दिनांक 05.06.2022 को समय 08.10 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

- 1.विजय उर्फ पकई यादव पुत्र स्व० महेन्द्र यादव निवासी डड़वापार थाना गोला जनपद गोरखपुर
2. देवेन्द्र उर्फ सतीराम यादव पुत्र रामनिवास यादव निवासी पाण्डेयपार उर्फ डड़वा थाना गोला जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक

स्थान – डड़वापार मोड़ थाना गोला जनपद गोरखपुर।

दिनांक- दिनांक 05.06.2022 को समय 08.10 बजे।

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ सतीराम के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

अभियुक्त विजय उर्फ पकई को जिस अपराध में गिरफ्तार किया गया विवरण-

मु०अ०सं० 58/22 धारा 147/505(2)/504/506 भादसं व 66 आईटी एक्ट व 3(1) दध एससी/एसटी एक्ट थाना गोला गोरखपुर

अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ सतीराम के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 157/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गोला गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम का नाम

- 1.उ०नि० जयराम यादव थाना गोला गोरखपुर
- 2.का० दिनेश कुमार यादव थाना गोला गोरखपुर